



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 माघ 1945 (श10)

(सं0 पटना 93) पटना, शुक्रवार, 2 फरवरी 2024

पर्यटन निदेशालय

अधिसूचना

2 फरवरी 2024

बिहार टूर ऑपरेटर्स, ट्रेवल एजेंसी एवं होटल संचालक प्रोत्साहन योजना 2024

सं० TDRT/80010/01-2024-372—पर्यटन देश के बड़े सेवा उद्योगों में से एक है। आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अंतरगामी (Inbound) पर्यटन से न केवल विदेशी मुद्रा अर्जित होती है बल्कि यह पर्यटकीय संरचना और सुविधाओं के सर्वांगीण विकास में भी सहायक होता है। पर्यटन देश को एक सूत्र में बांधने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

- 1.1 बिहार का पर्यटन क्षेत्र ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं धार्मिक धरोहरों से परिपूर्ण है। विदेशी पर्यटकों के बीच इसकी विविधता एवं समृद्धि को लेकर काफी उत्सुकता एवं कौतुहल देखा गया है। यह भावना विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू पर्यटक मेला आयोजनों में स्पष्टतः परिलक्षित होती है। पर्यटकों के बीच विभाग की तरफ से तैयार करायी गयी प्रचार सामग्री यथा पर्यटक स्थलों के विडियो, तस्वीरें एवं पर्यटकीय साहित्य काफी प्रचलित हो रहे हैं।
- 1.2 अंतरगामी (Inbound) पर्यटन, जिसमें घरेलू पर्यटन भी शामिल है, के विकास में पर्यटन-सेवा प्रदाताओं खासकर टूर ऑपरेटर्स, ट्रेवल एजेंसी एवं होटेलियर्स की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। इनकी सक्रियता पर्यटकीय आंकड़ों की वृद्धि में सहायक होती है। राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले टूर एण्ड ट्रेवल फेयर में इनकी सहभागिता न केवल बिहार के ब्रांडिंग में सहायक होती है बल्कि देशी एवं विदेशी टूर ऑपरेटर तथा पर्यटकों को आकर्षित करने में भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है।
- 1.3 यह राज्य के हित में है कि अधिक से अधिक टूर ऑपरेटर्स, ट्रेवल एजेंसी एवं होटेलियर्स इस तरह के आयोजनों में बढ़-चढ़ कर भाग ले। इस तरह की भागीदारी से अंततः पर्यटकीय संख्या में वृद्धि के रूप में फलीभूत होगी। इसी अवधारणा के अनुरूप टूर ऑपरेटर्स, ट्रेवल एजेंसी एवं होटेलियर्स को विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेवल फेयर, प्रदर्शनी एवं रोड शो में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु इस योजना का सृजन किया जा रहा है।

**2. योजना का उद्देश्य:**

- 2.1 टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंसी एवं होटेलियर्स को विदेशी पर्यटन बाजार में बिहार के पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रेरित और प्रोत्साहन करना।
- 2.2 घरेलू पर्यटन बाजार के लिये बिहार प्रदेश के पर्यटन स्थलों की बेहतर रूप से ब्रांडिंग और मार्केटिंग करना, ताकि इससे घरेलू पर्यटन में उल्लेखनीय वृद्धि हो।
- 2.3 बिहार के पर्यटकीय स्थलों पर देशी एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करना।

**3. योजना का विस्तार एवं पात्रता:**

- 3.1 इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन वैसे राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने हेतु प्रदान किया जायेगा जिसमें पर्यटन विभाग स्वयं भाग ले रहा हो या उनमें भाग लेने हेतु पर्यटन विभाग या निदेशालय के द्वारा टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंसी एवं होटेलियर्स को उत्प्रेरित किया गया हो।
- 3.2 इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन हेतु ट्रैवल फेयर, प्रदर्शनी एवं रोड शो (पर्यटन विभाग द्वारा प्रायोजित) में भाग लेने वाले वैसे टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंसी एवं होटेलियर आच्छादित होंगे जो पर्यटन निदेशालय के अन्तर्गत सूचीबद्ध/मान्यताप्राप्त होंगे।

**4. वित्तीय प्रोत्साहन राशि :-**

- 4.1 **घरेलू (Domestic) आयोजन**।—घरेलू (Domestic) से अभिप्राय बिहार राज्य के बाहर अन्य प्रदेशों में आहूत होने वाले आयोजनों से है। घरेलू (Domestic) आयोजनों के संदर्भ में प्रोत्साहन की राशि एकमुश्त रु० 15000/—(रुपये पन्द्रह हजार मात्र) या यात्रा टिकट एवं आवासन व्यय की सम्मिलित राशि का 50% जो कम हो, देय होगी।
- 4.2 **अन्तर्राष्ट्रीय आयोजन**—अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने हेतु प्रति आयोजन निम्नवत प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी:-
  - 4.2.a **आयोजन (1)**।—भारत की सीमा रेखा से सटे देशों में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने हेतु एकमुश्त रु० 30,000/—(रुपये तीस हजार मात्र) या यात्रा टिकट एवं आवासन व्यय की सम्मिलित राशि का 50% जो कम हो, देय होगी।
  - 4.2.b **आयोजन (2)**।—पश्चिम एशिया एवं दक्षिण-पूर्व एशिया देशों में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने हेतु एकमुश्त रु० 35,000/—(रुपये पैंतीस हजार मात्र) या यात्रा टिकट एवं आवासन व्यय की सम्मिलित राशि का 50% जो कम हो, देय होगी।
  - 4.2.c **आयोजन (3)**।—कोरिया, जापान, अफ्रीका तथा यूरोप के देशों में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने हेतु एकमुश्त रु० 50,000/—(रुपये पचास हजार मात्र) या यात्रा टिकट एवं आवासन व्यय की सम्मिलित राशि का 50% जो कम हो, देय होगी।
  - 4.2.d **आयोजन (4)**।—उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैण्ड आदि देशों में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने हेतु एकमुश्त रु० 75,000/—(रुपये पचहत्तर हजार मात्र) या यात्रा टिकट एवं आवासन व्यय की सम्मिलित राशि का 50% जो कम हो, देय होगी।

**5. प्रक्रिया :-**

- 5.1 आवेदक द्वारा इस योजना का लाभ उठाने के लिये सरकार के द्वारा लिये गये निर्णय के एक सप्ताह के अन्दर विहित प्रपत्र में आवेदन निदेशक, पर्यटन को देना होगा, जिसमें संबंधित आयोजन का विवरण एवं उसमें किये जाने वाले कार्यों का संक्षिप्त विवरण अंकित किया जायेगा। (अनुलग्नक-1)
- 5.2 **घरेलू आयोजनों** में भाग लेने के पश्चात् राशि प्रतिपूर्ति के लिये आवेदन के साथ यात्रा का टिकट एवं बोर्डिंग पास (हवाई यात्रा के संदर्भ में) तथा आवासन विपत्र मूल रूप में संलग्न करना होगा। इसके अतिरिक्त आयोजन में भाग लेने से संबंधित निमंत्रण, अपनी सहमति पत्र तथा विभाग द्वारा भाग लिये जाने हेतु अनुमति पत्र के साथ साक्ष्य के रूप में आवंटित स्थल पर कार्य करने का छायाचित्र भी संलग्न करना आवश्यक होगा।
- 5.3 **अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों** में भाग लेने के पश्चात् राशि प्रतिपूर्ति के लिये आवेदन के साथ हवाई यात्रा का टिकट एवं बोर्डिंग पास तथा आवासन विपत्र, पासपोर्ट, वीजा एवं इमीग्रेशन स्टाम्प के पृष्ठों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा। इसके साथ ही आयोजन में भाग लेने से संबंधित निमंत्रण एवं अपनी सहमति पत्र के साथ साक्ष्य के रूप में आवंटित स्थल पर कार्य करने का छायाचित्र भी संलग्न करना आवश्यक होगा।
- 5.4 प्रतिपूर्ति आवेदन के साथ प्रदर्शनी से संबंधित टूर रिपोर्ट एवं छायाचित्र भी समर्पित करना आवश्यक होगा। (अनुलग्नक-2)

- 5.5 आवेदक एक बार में एक आयोजन के लिये राज्य सरकार या केन्द्र सरकार में से किसी एक संस्थान का ही वित्तीय सहायता का लाभ ले सकेगा। इसके लिये आवेदक द्वारा स्वघोषित शपथ पत्र देना होगा। (अनुलग्नक-3)
- 5.6 आवेदक द्वारा गलत सूचना के आधार पर प्रोत्साहन राशि प्राप्त किये जाने पर उन्हें अगले तीन वर्ष हेतु उनकी मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
- 5.7 आवेदक को अधिकतम 03 अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों एवं 05 घरेलू आयोजनों के लिये प्रोत्साहन राशि देय होगा।
6. प्रोत्साहन राशि दावा करने की अवधि :-
  - 6.1 आवेदक द्वारा पर्यटन प्रदर्शनी के समाप्ति के 15 दिनों के अन्दर उपरोक्त वर्णित सभी कागजातों के साथ प्रतिपूर्ति आवेदन पत्र पर्यटन निदेशालय में समर्पित किया जायेगा।
7. योजना की स्वीकृति एवं राशि निकासी :-
  - 7.1 इस राशि को स्वीकृत करने का अधिकार निदेशक पर्यटन को होगा।
  - 7.2 इस राशि का व्यय विज्ञापन प्रकाशन मद के 2601 विपत्र कोड से की जायेगी।
8. योजना की अवधि एवं समीक्षा—यह योजना 01 जनवरी -31 दिसम्बर, 2024 तक लागू रहेगी। तत्पश्चात् इस योजना की अवधि विस्तार एवं समीक्षा आवश्यकतानुसार समय-समय पर की जाएगी तथा इसके लिये पर्यटन विभाग सक्षम होगा।

आदेश से,  
विनय कुमार राय,  
निदेशक।

बिहार पर्यटन-सेवा-प्रदाता प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत भाग लेने हेतु आवेदन प्रपत्र

क्र०	विवरणी	अभ्युक्ति
1	फर्म/एजेंसी का नाम	
2	फर्म/एजेंसी का पता, मोबाईल नं० एवं ईमेल आईडी	
3	भाग लेने वाले आयोजन का नाम	
4	भाग लेने वाले फर्म/एजेंसी के अधिकारी का नाम एवं मोबाईल नं०	
5	फर्म/एजेंसी द्वारा पूर्व में भाग लिये गये आयोजनों का नाम	
6	आयोजन में भाग लेने हेतु प्रस्थान की संभावित तिथि	

7. आयोजन में किये जाने वाले कार्यों की संक्षिप्त विवरणी :-

सक्षम प्राधिकार का हस्ताक्षर

नाम—

पदनाम—

फर्म/एजेंसी का नाम एवं पता—

तिथि एवं स्थान

बिहार पर्यटन-सेवा-प्रदाता प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत भाग लेने के पश्चात्  
प्रतिवेदन प्रपत्र (Tour Report)

क्र०	विवरणी	अभ्युक्ति
1	फर्म/एजेंसी का नाम	
2	फर्म/एजेंसी का पता, मोबाईल नं० एवं ईमेल आईडी	
3	भाग लेने वाले आयोजन का नाम	
4	भाग लेने वाले फर्म/एजेंसी के अधिकारी का नाम एवं मोबाईल नं०	
5	आयोजन में भाग लेने हेतु प्रस्थान एवं आगमन की तिथि	
6	आयोजन में भाग लेने का देश एवं शहर का नाम	
7	पूर्व में किये गये दावा की संख्या एवं आयोजन का नाम	
8	आयोजन में किये गये कार्यों की संक्षिप्त विवरणी तथा फोटोग्राफ	

सक्षम प्राधिकार का हस्ताक्षर

नाम—

पदनाम—

फर्म/एजेंसी का नाम एवं पता—

तिथि एवं स्थान

**बिहार पर्यटन-सेवा-प्रदाता प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत भाग लेने के पश्चात्  
स्वघोषणा प्रपत्र (Self-Declaration)**

1. मैं ..... (नाम) (पदनाम) (फर्म/एजेंसी का नाम) द्वारा ..... (आयोजन का नाम) (तिथि) में भाग लिया गया है।
2. मुझे या मेरी फर्म/एजेंसी को पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार या अन्य किसी संस्थान के द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है तथा कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।
3. मैं या मेरी फर्म/एजेंसी के द्वारा पूर्व में इस आयोजन में भाग लेने के लिये पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार या अन्य किसी संस्थान से वित्तीय सहायता/लाभ नहीं लिया गया है।
4. मैं या मेरी फर्म/एजेंसी के द्वारा दी गई उपरोक्त एवं अन्य सूचनाएँ सही है। गलत सूचना दिये जाने पर सभी राशि मेरे द्वारा शीघ्र लौटा दी जायेगी तथा अन्य उचित कार्रवाई की जायेगी।

सक्षम प्राधिकार का हस्ताक्षर

नाम—

पदनाम—

फर्म/एजेंसी का नाम एवं पता—

तिथि एवं स्थान

\_\_\_\_\_  
अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 93-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>